



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 10—अक्टूबर 16, 2009 (आश्विन 18, 1931)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10—OCTOBER 16, 2009 (ASVINA 18, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय

पुदुच्चेरी

स.प.वि/अकादमिक-I/संशोधन/2009-10/- पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय के अधिनियम 1985 (1985 के 53) के धारा 27 द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए तथा विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन, तथा विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष (भारत के राष्ट्रपति) की सहमति से, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिनियमों, अध्यादेश शासी शैक्षणिक मामलों को विश्वविद्यालय अधिनियम के धारा 44 की आवश्यकतानुसार प्रकाशित किया जाए।

शैक्षणिक अध्यादेशों हेतु संशोधन :

अध्याय I में खण्ड 2 का प्रस्थापन इस प्रकार है :

2 निम्नलिखित महाविद्यालयों/संस्थानों को पाण्डिच्चेरी के विशेषाधिकारों में प्रविष्ट माना गया है।

कला तथा विज्ञान महाविद्यालय

1 टैगोर कला महाविद्यालय, पुदुच्चेरी।

2 अरिन्जर अन्ना सरकारी कला महाविद्यालय, कारैक्कल।

- 3 जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह ।
- 4 भारतीदासन सरकारी महिला महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 5 महात्मा गाँधी सरकारी महिला महाविद्यालय, महे ।
- 6 अक्वैयार सरकारी कला महाविद्यालय, कोरैक्कल ।
- 7 डा० एस आर के सरकारी कला महाविद्यालय, यमन ।
- 8 काँची महामुणिवर केन्द्र स्नातकोत्तर अध्ययन, पुदुच्चेरी ।
- 9 महात्मा गाँधी सरकारी महाविद्यालय, मायाबन्दर ।
- 10 राजीव गाँधी कला तथा विज्ञान महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 11 पेरुन्तलैवर कामराजर सरकारी कला महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 12 डिवाइन मदर महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 13 इंदिरा गाँधी कला तथा विज्ञान महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 14 शारदा गंगाधरण महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 15 आचार्या कला तथा विज्ञान महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 16 इदया कला तथा विज्ञान महिला महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 17 कस्तूबा महिला महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

18 रत्नवेल्ल सुब्रमणियम कला तथा विज्ञान महाविद्यालय, करैक्कल ।

शिक्षा महाविद्यालय

1 पोप जान पौल II शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

2 टैगौर सरकारी शिक्षा महाविद्यालय, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह ।

3 श्री नारायण शिक्षा महाविद्यालय, महे ।

4 इमैक्यूलेट महिला शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

5 उषालच्छुमनान शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

6 आचार्या शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

7 पेरुन्तलैवर कामराजर शिक्षा महाविद्यालय, करैक्कल ।

8 एल्फा शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

9 अरुत्पेरुन्चोदी रामलिंगस्वामी शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

10 डान बास्को शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, करैक्कल ।

11 डा अन्बु पौल शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

12 लोएला अध्यापक शिक्षण संस्थान, पुदुच्चेरी ।

13 कृष्णस्वामी महिला शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

- 14 महे कोआपरेटिव अध्यापक शिक्षण महाविद्यालय, महे ।
- 15 नेहरू शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 16 रीजेन्सी शिक्षा महाविद्यालय, यमन ।
- 17 वासवी शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 18 वेक्टेस्वरा शिक्षा महाविद्यालय, मूलकुप्पम्, पुदुच्चेरी ।
- 19 वेक्टेस्वरा शिक्षा महाविद्यालय, मडगादिपेट्ट, पुदुच्चेरी ।
- 20 विवेकानन्दा शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी
- 21 कोआपरेटिव शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 22 सेन्तिल शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 23 सबरी शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 24 अमरनाथ शिक्षा महाविद्यालय, कोरैक्कल ।
- 25 एन टी एस शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 26 श्री साईराम शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 27 सेन्ट एनीस शिक्षा महाविद्यालय तथा अनुसंधान केन्द्र, पुदुच्चेरी ।
- 28 टी वी आर शिक्षा महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

29 डा० कलईकन्न महिला महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

30 आर वी एस शिक्षा महाविद्यालय, कारैक्कल ।

31 श्री वेकटेश्वरा शिक्षा महाविद्यालय, कारैक्कल ।

इंजीनियरिंग महाविद्यालय

1 पाण्डिच्चेरी इंजीनियरी महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

2 भारतीयार इंजीनियरी तथा तकनीकी महाविद्यालय, कारैक्कल ।

3 राजीव गाँधी इंजीनियरी तथा तकनीकी महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

4 श्री मानकुला विनायगर इंजीनियरी महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

5 रीजेन्सी तकनीकी संस्थान, यमन ।

6 क्रइस्ट इंजीनियरी तथा तकनीकी महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

7 पेरुन्तलैवर कामराजर इंजीनियरी तथा तकनीकी संस्थान, कारैक्कल ।

8 मानकुला विनायगर तकनीकी संस्थान, पुदुच्चेरी ।

चिकित्सा महाविद्यालय

1 पाण्डिच्चेरी चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पुदुच्चेरी ।

2 श्री मानकुला विनायगर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पुदुच्चेरी ।

3 श्री वेन्कटेश्वरा चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्र, पुदुच्चेरी ।

पैरामेडिकल/ नर्सिंग महाविद्यालय

1 मदर टेरेसा स्वास्थ्य विज्ञान स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान, संस्थान, पुदुच्चेरी ।

2. नर्सिंग महाविद्यालय , पिम्स , पुदुच्चेरी ।

3. कस्तूरबा गांधी नर्सिंग महाविद्यालय, महात्मा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान केन्द्र , पुदुच्चेरी ।

4. सबरी नर्सिंग महाविद्यालय पुदुच्चेरी ।

5 श्री मनकुला विनायगर नर्सिंग महाविद्यालय पुदुच्चेरी ।

6 इंदिरानी नर्सिंग महाविद्यालय पुदुच्चेरी ।

दंत चिकित्सा महाविद्यालय

1 महात्मा गाँधी दंत चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान , पुदुच्चेरी ।

2 इंदिरा गाँधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान , पुदुच्चेरी ।

पशु चिकित्सा विज्ञान

1 राजीव गाँधी पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।

कला तथा संस्कृति महाविद्यालय

- 1 भारतीयार पलकलैकूडम्, पुदुच्चेरी ।

विधि महाविद्यालय

- 1 डा० बी आर अम्बेडकर सरकारी विधि महाविद्यालय, पुदुच्चेरी ।
- 2 श्री बालाजी विधि विद्यालय, पुदुच्चेरी ।

अनुसंधान संस्थान

- 1 वेक्टर (vector) नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र (आई सी एम आर) ।
- 2 प्रादेशिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र (आई सी एम आर), अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह ।

अध्याय XIX । क, ख, ग, घ, ङ तथा ४क, ख का अंतः स्थापन इस प्रकार है -

- 1 क उपलब्धियाँ प्रदान करने हेतु साधारणतः प्रत्येक वार्षिकी में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है । दीक्षांत समारोह की तिथि तथा स्थान मूलतः कुलपति द्वारा कुलाधिपति से पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही निर्धारित किया जाता है ।

ख प्रत्येक अकादमिक वर्ष के आरंभ में विश्वविद्यालय अपने अकादमिक कैलेंडर की उद्घोषणा करता है, जिसमें वह उस वर्ष हुए सभी गतिविधियों/कार्यकलापों की अनुसूची तैयार करता है।

ग विश्वविद्यालयी अकादमिक कैलेंडर में अकादमिक गतिविधियाँ जैसे पाठ्यक्रम तथा परीक्षाओं की अनुसूची के अतिरिक्त उसमें दीक्षांत उपाधियों के दिनांकों का विवरण भी सम्मिलित है।

घ विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह को साल में एक बार सकता आयोजित किया जाता है और उसको अकादमिक कैलेंडर में सम्मिलित किया जा सकता है।

ङ दीक्षांत उपाधि समारोह को 180 दिनों के अन्तर्गत ही आयोजित किया जाए जिसके बीच विद्यार्थी आर्हता/योग्यता प्राप्त कर ले तथा उपाधि प्राप्त करने हेतु पात्रता सिद्ध करे।

8 क प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी उपाधि प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रार को निर्धारित समय पर शुल्क सहित दीक्षांत समारोह में प्रवेश कर सकेगी।

ख विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के संदर्भ में निर्धारित तिथि के 30 दिन पहले ही इस कार्यक्रम के सन्दर्भ में सूचित करेगे, ताकि उम्मीदवार उसके लिए अर्जी दे सके।

अध्याय XX, संलग्नक II नोट 1.4.1 और नोट 3.3.0 को भी प्रतिस्थापित किया जाए जो इस प्रकार है:

विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों में प्रवक्ता पद में भर्ती हेतु नेट/स्लेट ही पात्रता की न्यूनतम शर्त होगी।

सम्भवतः, उन उम्मीदवारों को, जिन्हें विनियम 2008 के तहत वास्तव में “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)” के मानकों के अनुसार (न्यूनतम मानकों तथा पी.एच.डी की उपाधि प्राप्ति हेतु कार्यविधि) पी.एच.डी की उपाधि प्राप्त हो, उन्हें विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों में प्रवक्ता पद में भर्ती हेतु नेट/स्लेट की न्यूनतम पात्रता के प्रतिबंधों से छूट दी जाती है।

परिशिष्ट - I को प्रतिस्थापित किया जाए जो इस प्रकार है :

परिशिष्ट - I

निरीक्षण समिति निधि, संबंधन निधि, विन्यास आदि

निरीक्षण समिति निधि (स्थानीय निरीक्षण समिति)

प्रथम आगमन/निरीक्षण : ₹ 15,000/- + यात्रा भत्ता/महँगाई भत्ता

तथा मानदेय ₹ 1,000/- प्रति समिति सदस्य

द्वितीय आगमन/निरीक्षण

: ₹ 15,000/- + यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता

तथा मानदेय ₹ 1,000/- प्रति समिति सदस्य

विलम्ब निधि :

15 दिनों तक : ₹ 25,000/-

30 दिनों तक : ₹ 50,000/-

30 दिनों के बाद ₹ 50,000/- + ₹ 2,000/-

प्रतिदिन एक माह की अवधि के समाप्ति तक

1. i. क संबंधन निधि (आरंभिक : 1 वर्ष) : ₹ 50,000/- तक 5 उपक्रम

कला तथा विज्ञान (स्नातक) (आरंभिक संख्या 40)

ख आगामी पाठ्यक्रमों हेतु संबंधन निधि : ₹ 15,000/- प्रति पाठ्यक्रम

कला तथा विज्ञान (स्नातक)

ग अतिरिक्त संख्या हेतु संबंधन निधि : ₹ 5,000/- (50 या एक भाग तथा

कला तथा विज्ञान (स्नातक) उसके गुणांक)

. ii. क संबंधन निधि (आरंभिक : 1 वर्ष) : ₹ 75,000/- 10-15 विद्यार्थी

कला तथा विज्ञान (स्नातकोत्तर)

ख आगामी पाठ्यक्रमों हेतु संबंधन निधि : ₹ 25,000/- प्रति पाठ्यक्रम

कला तथा विज्ञान (स्नातकोत्तर)

ग अतिरिक्त संख्या हेतु संबंधन निधि : ₹ 5,000/- (10 या एक भाग तथा
कला तथा विज्ञान (स्नातकोत्तर) उसके गुणांक)

2. i. क संबंधन निधि (आरंभिक : 1 वर्ष) : चिकित्सा (स्नातक 100 सीटे)
7,50,000/-

ख अतिरिक्त संख्या हेतु निबंधन निधि : ₹ 1,00,000/-(एककों या अंशों तथा
चिकित्सा (स्नातक) उसके गुणांक)

(i) (ii) क निबंधन निधि (आरंभिक) : ₹ 50,00,000/-

चिकित्सा (स्नातकोत्तर) / दंत

चिकित्सा (स्नातकोत्तर) जिसमें अति

विशेष चार इकाईयाँ सम्मिलित हैं

(i) (ii) ख निबंधन निधि चिकित्सा : ₹ 1,00,000/-(4 एककों या अंशों

चिकित्सा (स्नातकोत्तर) / दंत

तथा उसके गुणांकों

चिकित्सा (स्नातकोत्तर) जिसमें अति

विशेष चार इकाईयाँ सम्मिलित हैं

(ii) क इंजीनियरी/ दंत चिकित्सा (स्नातक) : ₹ 3,00,000/-

हेतु संबंधन निधि अधिकतम् तीन

पाठ्यक्रम तथा 60 विद्यार्थी

ख आगामी इंजीनियरी/ दंत चिकित्सा : ₹ 50,000/-

पाठ्यक्रमों (स्नातक) संबंधन निधि

- ग इंजीनियरी/ दंत चिकित्सा (स्नातक) : रू 1,00,000/-
 में अतिरिक्त संख्या हेतु संबंधन निधि
 (अतिरिक्त 60 या अंशों तथा उसके
 के लिए गुणांकों)
- (ii)i.क इंजीनियरी (स्नातकोत्तर) हेतु : रू 1,50,000/-
 संबंधन निधि (आरंभिक : 1 वर्ष)
 25 विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम
- (ii)i.ख इंजीनियरी (स्नातकोत्तर) में अतिरिक्त : रू 50,000/-
 संख्या हेतु संबंधन निधि (25-50 विद्यार्थी
 से लेकर उनके गुणांकों तक)
- (iii)क विधि (स्नातक) के लिए संबंधन : रू 1,00,000/-
 निधि (आरंभिक : 1 वर्ष)
 80 युनिट विद्यार्थियों के लिए
- (iii)ख विधि (स्नातक) में अतिरिक्त : रू 50,000/-
 संख्या हेतु संबंधन निधि (81-120
 विद्यार्थी से लेकर उनके गुणांकों तक)
- (iii) i क विधि (स्नातकोत्तर) के लिए संबंधन : रू 1,50,000/-
 10 विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम
- (iii)i ख विधि (स्नातक) में अतिरिक्त : रू 50,000/-
 संख्या हेतु संबंधन निधि (11-20

विद्यार्थी से लेकर उनके गुणांकों तक)

- | | |
|--|-----------------|
| (iii) ii क शिक्षा स्नातक/ शिक्षा स्नातक
(एकीकृत) हेतु संबंधन निधि
100 विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम | :रू 5,00,000/- |
| (iii) ii ख शिक्षा स्नातक/ शिक्षा स्नातक
(एकीकृत) में अतिरिक्त संख्या
हेतु संबंधन निधि (101-160 विद्यार्थी
से लेकर उनके गुणांकों तक) | : रू 1,00,000/- |
| (iii) iii क शिक्षा स्नातकोत्तर कोर्स
(आरंभिक : 1 वर्ष) के लिए
संबंधन निधि 30 विद्यार्थी | : रू 7,50,000/- |
| (iii) iii ख शिक्षा स्नातकोत्तर कोर्स में
अतिरिक्त संख्या हेतु संबंधन निधि
(31-50 विद्यार्थी से लेकर उनके
गुणांकों तक) | : रू 2,50,000/- |
| (iii) iv क पशु चिकित्सा विज्ञान/ कृषि (स्नातक)
में 60 विद्यार्थियों के लिए संबंधन निधि | : रू 3,00,000/- |
| (iii) iv ख पशु चिकित्सा विज्ञान/ कृषि (स्नातक)
हेतु संबंधन निधि (61-90 विद्यार्थी से
लेकर उनके गुणांकों तक) | : रू 1,00,000/- |

(iii) v क पैरामेडिकल भेषजी स्नातक/ शारीरिक शिक्षा : रू 3,00,000/-
 स्नातक, स्नातक (परिचार्या) हेतु संबंधन निधि
 आदि पाठ्यक्रम प्रति एकक 100 विद्यार्थी

(iii) v ख पैरामेडिकल भेषजी स्नातक/ शारीरिक शिक्षा : रू 1,00,000/-
 स्नातक, स्नातक (परिचार्या) आदि में अतिरिक्त
 संख्या हेतु संबंधन निधि (101-160 विद्यार्थी से
 लेकर उनके गुणांकों तक)

(iii) vi क अन्य स्नातकोत्तर व्यावासायिक पाठ्यक्रमों : रू 2,50,000/-
 एम सी ए/एम बी ए/एम फार्म/एम वी एस सी/
 एम एस सी(कृषि) आदि के लिए
 (आरंभिक एक वर्ष) संबंधन निधि 60 सीटों तक

(iii) vi ख स्नातकोत्तर व्यावासायिक पाठ्यक्रमों एम सी ए/ : रू 1,00,000/-
 एम बी ए/ एम फार्म/एम वी एस सी / एम एससी
 (कृषि) आदि में अतिरिक्त संख्या हेतु संबंधन निधि
 (61 -120 विद्यार्थी से लेकर उनके गुणांकों तक)

(iii) vii क विद्या निष्णात के 5 पाठ्यक्रमों में 10 सीटे : रू 2,50,000/-
 प्रति पाठ्यक्रम हेतु संबंधन निधि

(iii) vii ख विद्या निष्णात में प्रति पाठ्यक्रम में अतिरिक्त : रू 5,000/-
 संख्या हेतु संबंधन निधि (10-15 विद्यार्थी से

लेकर उनके 5 गुणांकों तक)

(iii) viii क विद्या वाचस्पति के लिए (आरंभिक एक वर्ष) : ₹ 2,50,000/-

संबंधन निधि 5 पाठ्यक्रमों तक

अस्थायी संबंधन की अनुवर्ती के लिए संबंधन निधि, प्रति पाठ्यक्रम

3.I कला तथा विज्ञान: (स्नातक) : ₹ 10,000/-

I(ii) विधि के (स्नातक) 80 विद्यार्थियों की इकाई : ₹ 10,000/-

I(iii) क कला तथा विज्ञान (स्नातकोत्तर) : ₹ 10,000/-

प्रति पाठ्यक्रम

ख चिकित्सा विज्ञान (स्नातक) : ₹ 1,50,000/-

प्रति पाठ्यक्रम

(100 सीटे या फिर 50 सीटों

तक या उसका अंश ₹ 75,000/-

तथा उसके गुणांक)

ग चिकित्सा (स्नातकोत्तर)/ दंत चिकित्सा : ₹ 50,000/- ₹ 25,000/-

(स्नातकोत्तर) जिसमें अतिविशेष चार
इकाईयाँ भी सम्मिलित है

से अधिक या इसका अंश तथा
उसके गुणांकों तक

घ इंजीनियरी/ दंत चिकित्सा (स्नातक) : ₹ 50,000/-

अधिकतम् 3 पाठ्यक्रम तथा 60

विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम

अतिरिक्त 60 विद्यार्थी या उसका अंश प्रति पाठ्यक्रम	: ₹ 10,000/-
ड इंजीनियरी (स्नातकोत्तर) 25 विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम	: ₹ 25,000/-
च विधि (स्नातकोत्तर) 10 विद्यार्थीयों का एकक प्रति पाठ्यक्रम	: ₹ 10,000/-
छ शिक्षा स्नातक/ शिक्षा स्नातक एकीकृत 100 विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम	: ₹ 50,000/-
ज शिक्षा निष्णात में 30 विद्यार्थी	: ₹ 50,000/-
झ पशु चिकित्सा विज्ञान/ कृषि (स्नातक) 60 विद्यार्थी	: ₹ 60,000/-
ञ पैरामेडिकल : बी फार्म/ बी पी टी/ परिचर्या स्नातक आदि प्रति पाठ्यक्रम में 100 विद्यार्थी	: ₹ 75,000/-
त अन्य स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एम सी ए/एम बी ए/एम फार्म/एम बी एस सी/ एम एस सी (कृषि) आदि 60 सीटों तक	: ₹ 20,000/-
थ विद्या निष्णात में 5 अतिरिक्त पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 5,000/- प्रति पाठ्यक्रम	: ₹ 20,000/-

द विद्या वाचस्पति 5 अतिरिक्त पाठ्यक्रमों

: ₹ 20,000/-

हेतु ₹ 5,000/- प्रति पाठ्यक्रम

3II बाद के उत्तरवर्ती वर्षों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए संबंधन निधि

(i) कला तथा विज्ञान (प्रति पाठ्यक्रम)

: ₹ 20,000/-

(स्नातक)

(ii) क चिकित्सा विज्ञान (स्नातक)

-शून्य-

ख इंजीनियरी/ दंत चिकित्सा (स्नातक)

: ₹ 1,00,000/-

अधिकतम तीन पाठ्यक्रम तथा 60

विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम

60 विद्यार्थियों से अधिक या उसका अंश

: ₹ 50,000/-

प्रति पाठ्यक्रम

ग विधि (स्नातक)

अनुपलब्ध

घ शिक्षा स्नातक/ शिक्षा स्नातक एकीकृत

अनुपलब्ध

ङ पशु चिकित्सा विज्ञान/ कृषि विज्ञान

अनुपलब्ध

(स्नातक)

च पैरामेडिकल बी फार्म/ बी पी टी/

: ₹ 50,000/-

परिचार्या स्नातक आदि प्रति पाठ्य

क्रम में 100 विद्यार्थियों की इकाई

(iii) क कला तथा विज्ञान (स्नातकोत्तर)	: ₹ 50,000/-
10-15 विद्यार्थी	
ख विद्या निष्णात में प्रति कार्यक्रम में	: ₹ 20,000/-
10 सीटे	
ग विद्या वाचस्पति प्रति कार्यक्रम	: ₹ 5,000/-
क (i) चिकित्सा (स्नातकोत्तर)/ दंत चिकित्सा	: ₹ 2,00,000/-
(स्नातकोत्तर) जिसमें अतिविशेष चार	
इकाईयाँ भी सम्मिलित है	
(ii) चार से अधिक या उसका अंश	: ₹ 1,00,000/-
ख इंजीनियरी (स्नातकोत्तर) 25	: ₹ 1,00,000/-
विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम	
ग विधि (स्नातकोत्तर) 10 विद्यार्थीयों	: ₹ 25,000/-
का एकक प्रति पाठ्यक्रम	
घ शिक्षा निष्णात में 30 विद्यार्थी	अनुपलब्ध
अन्य स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों	: ₹ 80,000/-
एम सी ए/ एम बी ए/ एम फार्म/ एम वी एस सी/	
एम एस सी (कृषि) आदि में 60 सीटों तक	

स्थायी संबंधन निधि / महाविद्यालयों के लिए प्रतिमानक

क्रम सं०	स्थायी संबंधन निधि	5वर्षों तक स्थायी संबंधन निधि रू	प्रत्येक अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए संबंधन निधि रू
1	कला तथा विज्ञान स्नातक (5 पाठ्यक्रमों के लिए) कला तथा विज्ञान स्नातक (5 पाठ्यक्रमों के लिए) 10-15 विद्यार्थी	1,00,000/-	20,000/-
2	चिकित्सा विज्ञान (स्नातक) 100 सीटों तक	15,00,000/- (10 विद्यार्थीयों के लिए) 7,50,000/- अतिरिक्त 50 विद्यार्थी या उसका अंश	जैसे पिछले कालम् में निर्देशित है
3	क) चिकित्सा विज्ञान (स्नातकोत्तर)/ दंत चिकित्सा (स्नातकोत्तर) 4 इकाई प्रति पाठ्यक्रम में अतिविशिष्टता	4,00,000/-	4,00,000/-
	ख) अतिरिक्त 4 विद्यार्थी या उसका अंश	2,00,000/-	2,00,000/-
4	इंजीनियरी / दंत चिकित्सा (स्नातक) अधिकतम तीन पाठ्यक्रम प्रति 60	2,00,000/- 1,00,000/-	2,00,000/- 1,00,000/-

	विद्यार्थी 60 से अधिक या उसका अंश		
5	इंजीनियरी (स्नातकोत्तर) 25 विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम	2,00,000/-	2,00,000/-
6	विधि (स्नातक) 80 विद्यार्थियों की इकाई प्रति पाठ्यक्रम	1,00,000/-	1,00,000/-
7	विधि (स्नातकोत्तर) 10 विद्यार्थियों की इकाई प्रति पाठ्यक्रम	1,00,000/-	1,00,000/-
8	शिक्षा (स्नातक)/ शिक्षा स्नातक (एकीकृत) 100 विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम	5,00,000/-	5,00,000/-
9	शिक्षा निष्णात (प्रति 30 विद्यार्थी)	5,00,000/-	5,00,000/-
10	पशु चिकित्सा विज्ञान/ कृषि विज्ञान प्रति पाठ्यक्रम 60 विद्यार्थियों तक	6,00,000/-	6,00,000/-
11	पैरामेडिकल बी फार्म/ बी पी टी/ परिचार्या स्नातक आदि प्रति पाठ्यक्रम में 100 विद्यार्थियों की इकाई	5,00,000/-	1,00,000/-
12	अन्य स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एम सी ए/ एम बी ए/ एम फार्म/ एम बी एस सी/एम एस सी (कृषि) आदि में 60 सीटों तक	80,000/-	50,000/-
13	विद्या निष्णात/ विद्या वाचस्पति 5 पाठ्यक्रमों के लिए 10 सीटें	80,000/-	50,000/-
14	विद्या वाचस्पति 5 पाठ्यक्रमों के लिए	80,000/-	50,000/-

स्थायी संबंधन अनुदान के प्रतिमानक

- i) उन्ही को स्थायी संबंधन दिया जाएगा जिस विषय में विद्यार्थियों का तीन बैच उत्तीर्ण हुआ हो।
- ii) अनुदान के संबंधन के समय संस्थान को निर्धारित संबंधन प्रतिमानों के अनुसार अपने अविलंग्गम जमीन तथा इमारतों के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
- iii) वह संस्थान संबंधित विषय में अध्यापकों की नियुक्ति करेगा (कम से कम 80%) और सरकार संविधिक संगठन द्वारा निर्धारित किया गया वेतनमान ही देगा। उन अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा क्रमशः संविधिक संगठन द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- iv) संबंधन अनुदान के लिए इस संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति तथा समस्त नियमों तथा विनियमों का पालन करना होगा।
- v) यदि अनुदान संबंधन हेतु निर्धारित शर्तों के अतिक्रमण के प्रसंग विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस किया गया, तब विश्वविद्यालय का यह अधिकार बनता है कि वह निर्धारित कालावधि के लिए उस संस्थान के संबंधन को निलम्बित कर सकती है जिसका निर्णय अतिक्रमण की प्रकृति के आधार पर बाद में समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- vi) संस्थान किसी भी विद्यार्थी या कर्मचारी से विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क या अन्य प्रभार के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या किसी सहन्यास आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क या चंदा नहीं लेगा।
- vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किसी भी असहायता प्राप्त कालेज प्रबंधन को अपने लेखा की परीक्षा किसी पंजीकृत चार्टरित लेखाकार से करवाना होगा। वित्तीय वर्ष के बाद छः महीनों के

अन्तर्गत उन्हें अपने लेखा परीक्षा सहित अपनी वार्षिक लेखा विश्वविद्यालय के समक्ष निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करना होगा।

viii) विश्वविद्यालय/ सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन के तदनुसार ही दाखिला होगा।

ix) विश्वविद्यालय का यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय संस्थान का निरीक्षण कर सकते हैं ताकि संबंधन जारी रहे।

x) प्रत्येक संस्थान को अपने रजिस्टर तथा रिकार्ड बनाए रखने होंगे तथा विश्वविद्यालयी विनियम तथा नियमों के आधार पर सांख्यिकीय आँकड़े भी बनाए रखना होगा और जब कभी आवश्यकता हो तब विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

xi) प्रत्येक संस्थान को स्थायी संबंधन के अनुदान हेतु www.pondiuni.edu.in वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष अर्थात् 1 अक्टूबर को या उससे पहले जमा कर दे।

xii) महाविद्यालयों कि स्थायी संबंधन स्थिति में चाहे वह संकाय की स्थिति में हो या फिर अवसंरचना सुविधाओं में हो यदि किसी प्रकार का परिवर्तन विश्वविद्यालय द्वारा देखा गया हो तो उसकी अयोग्यता या अनर्हता स्वतः सिद्ध हो जाएगी।

xiii) स्थायी संबंधन प्राप्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय को सभी देय राशी का नियतावधि पर भुगतान करना होगा।

xiv) स्थायी संबंधन हेतु निवेदन के तीन वर्ष पूर्व महाविद्यालय को किसी प्रकार की चिर क्षति न पहुंचे।

नोट: i) स्थायी संबंधन के अनुदान के अधीन प्रत्येक पाँच वर्ष में पुनः अवलोकन होगा और तदनुसार पाँच वर्षों में एक बार निधि का भुगतान होगा।

ii) नियमित अध्यापकों की न्यूनतम आवश्यकताएँ निरीक्षण समिति ही तय करेगी, मुख्यतः दीर्घकालिक कान्ट्रैक्ट/ तदर्थ नियुक्तियों को मत्तेनजर रखते हुए विशेषतः सरकारी महाविद्यालयों में।

विन्यास हेतु प्रावधान और नये महाविद्यालयों/ पाठ्यक्रमों के लिए भूमि

धर्मस्व : नया महाविद्यालय आरंभ करने या वे महाविद्यालय जो नया पाठ्यक्रम आरंभ करना चाहते हैं उन्हें विन्यासों का निर्माण करना होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

धर्मस्व : विन्यास का पचास प्रतिशत, आवधिक जमा के रूप में दिखाया जाए जिसका निवेश राष्ट्रीकृत बैंक या अनुसूचित बैंको में हो जो पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार तथा महाविद्यालय प्रबंधन के नाम पर संयुक्त रूप में हो। शेष पचास प्रतिशत महाविद्यालय प्रबंधन अपनी संपत्ति के रूप में दिखा सकता है। यह भारमुक्त सम्पत्ति के रूप में हो जो वार्षिक आय में अपना योगदान देती है। दोनों आय अर्थात् आवधिक जमा का वार्षिक ब्याज और भारमुक्त परिसम्पत्तियों के वार्षिक आय का व्यय महाविद्यालय के रखरखाव के लिए मात्र हो।

आगामी पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक धर्मस्व : (यदि प्रबंधन द्वारा निवेदन किया जाए तो धर्मस्वों की अदायगी किस्तों में की जा सकती है। स्नातक पाठ्यक्रमों का दो किस्तों में और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का चार किस्तों में।)

परिसम्पत्ति कि परिभाषा : भारमुक्त सम्पत्ति, महाविद्यालयों की इमारते, कर्मचारी आवास, छात्रावास, कृषि भूमि।

नये महाविद्यालय आरंभ करने हेतु धर्मस्व				
1	कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान	रु	25,00,000	50% नकद में तथा 50% सम्पत्ति के रूप में
2	चिकित्सा	रु	1.00,00,000	50% नकद में तथा 50% सम्पत्ति के रूप में
3	इंजीनियरी	रु	75,00,000	50% नकद में तथा 50% सम्पत्ति के रूप में
4	दंत चिकित्सा	रु	75,00,000	50% नकद में तथा 50% सम्पत्ति के रूप में
5	शिक्षा	रु	25,00,000	50% नकद में तथा 50% सम्पत्ति के रूप में
6	शारीरिक शिक्षा	रु	15,00,000	50% नकद में तथा 50% सम्पत्ति के रूप में
7	पशु चिकित्सा	रु	50,00,000	50% नकद में तथा 50%

				सम्पत्ति के रूप में
8	कृषि	रू	30,00,000	50% नकद में तथा 50% सम्पत्ति के रूप में
9	होटल प्रबंधन	रू	30,00,000	50% नकद में तथा 50% सम्पत्ति के रूप में
10	विज्ञान	रू	30,00,000	50% नकद में तथा 50% सम्पत्ति के रूप में
11	पैरामेडिकल	रू	30,00,000	50% नकद में तथा 50% सम्पत्ति के रूप में
12	प्रबंधन	रू	50,00,000	50% नकद में तथा 50% सम्पत्ति के रूप में

नोट : धर्मस्व का निर्माण और आय का प्रयोग/ ब्याज के निबंधन राशि में परिवर्तन अपेक्षित है तथा मात्र सुनिश्चित राशि में परिवर्तन हुआ है।

गत महाविद्यालयों में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक धर्मस्व		
1	कला, मानविकी तथा विज्ञान	रू
	बी ए - कोई भी मुख्य विषय	10,00,000
	बी एस सी - कोई भी मुख्य विषय	30,00,000
	बी काम - स्नातक पाठ्यक्रम	2,50,000

	एम ए - कोई भी विषय	2,50,000
	एम एस सी - कोई भी विषय	5,00,000
	एम काम - स्नातक पाठ्यक्रम	2,50,000
2	चिकित्सा स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा/ अति विशिष्ट पाठ्यक्रम	25,00,000
3	इंजीनियरी, प्रबंधन, एम सी ए/एम बी ए/ समानार्थी	
	(क) स्नातक स्तर के प्रत्येक शाखा को	5,00,000
	(ख) स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक शाखा को	7,50,000
4	दंत चिकित्सा, भेषजी, परिचार्या, विधि आदि	10,00,000
5	शिक्षा निष्णात	5,00,000
6	शरीरिक शिक्षा निष्णात	5,00,000

नोट : धर्मस्व का निर्माण और आय का प्रयोग/ ब्याज के निबंधन राशि में परिवर्तन अपेक्षित है तथा मात्र सुनिश्चित राशि में परिवर्तन हुआ है।

नोट : गृह विज्ञान (स्नातक) के प्रत्येक शाखा को धर्मस्व प्राप्ति हेतु पृथक पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा। प्रस्थापित महाविद्यालयों द्वारा नवीन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए

आवश्यक धर्मस्व में छूट दी जा सकती है बशर्ते वे उस नये पाठ्यक्रमों को चलाने हेतु पर्याप्त आय दिखा सके। “ प्रस्थापित महाविद्यालय ” अर्थात् वे कालेज जो निम्नलिखित प्रतिमानों की संतोषजनक पूर्ति करते हो :

क) वह महाविद्यालय जो पिछले पच्चीस सालों से प्रस्थापित है।

ख) वह महाविद्यालय जिसमें विद्यार्थियों की संख्या हजार है।

ग) वह महाविद्यालय जहाँ पर कम से कम दस विभाग है (स्नातक तथा स्नातकोत्तर)

घ) वह महाविद्यालय जिसके पास बीस लाख तक की राशि, परिसम्पत्ति के रूप में हो।

महाविद्यालयों/ संस्थानों को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक भूमि

कला, मानविकी तथा विज्ञान (वे महाविद्यालय भी सम्मिलित है जो कैंटरिंग तथा होटल प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।)

उपर्युक्त एकल भूमि जो पाँच एकड़ से कम की न हो और जिस पर आवेदक का कब्जा या स्वामित्व हो और वह भूमि 99 वर्ष तक उसके पास हो और वह महाविद्यालय के निर्माण हेतु पट्टे पर दें।

चिकित्सा महाविद्यालय :

उपर्युक्त एकल भूमि जो पच्चीस एकड़ से कम की न हो और जिस पर आवेदक का कब्जा या स्वामित्व हो और उस भूमि पर 99 वर्षों तक उसका कब्जा हो और वह महाविद्यालय के निर्माण हेतु पट्टे पर दे ।

दंत चिकित्सा महाविद्यालय :

उपर्युक्त एकल भूमि जो दस एकड़ से कम की न हो और जिस पर आवेदक का कब्जा या स्वामित्व हो और उस भूमि पर 99 वर्षों तक उसका कब्जा हो और वह महाविद्यालय के निर्माण हेतु पट्टे पर दे ।

पैरामेडिकल महाविद्यालय :

उपर्युक्त एकल भूमि जो पाँच एकड़ से कम की न हो और जिस पर आवेदक का कब्जा या स्वामित्व हो और उस भूमि पर 99 वर्षों तक उसका कब्जा हो और वह महाविद्यालय के निर्माण हेतु पट्टे पर दे ।

इंजीनियरी महाविद्यालय :

एक नया इंजीनियरी महाविद्यालय जो महानगर में स्थित न हो उन्हें निवर्तन हेतु बीस एकड़ जमीन प्राप्त होगी तथा वे संस्थान जो महानगरों में स्थित हैं उन्हें कार्य आरंभ पर दस एकड़ जमीन प्राप्त होगी ।

शिक्षक महाविद्यालय :

कुल मिलाकर भूमि जो पाँच एकड़ से कम की न हो और जिस पर आवेदक का कब्जा या स्वामित्व हो और उस भूमि पर 99 वर्षों तक उसका कब्जा हो और वह महाविद्यालय के निर्माण हेतु पट्टे पर दे ।

विधि महाविद्यालय :

कुल मिलाकर भूमि जो दस एकड़ से कम की न हो और जिस पर आवेदक का कब्जा या स्वामित्व हो और उस भूमि पर 99 वर्षों तक उसका कब्जा हो और वह महाविद्यालय के निर्माण हेतु पट्टे पर दे ।

शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय :

कुल मिलाकर भूमि जो दस एकड़ से कम की न हो और जिस पर आवेदक का कब्जा या स्वामित्व हो और उस भूमि पर 99 वर्षों तक उसका कब्जा हो और वह महाविद्यालय के निर्माण हेतु पट्टे पर दे ।

कुलपति को यह प्राधिकार है कि वह संबंधित संविधिक निकाओं द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार भूमि की आवश्यकताओं में परिवर्तन ला सके ।

नया अध्याय (अध्याय XXII) सम्मिलित किया जाए जो इस प्रकार है :

अन्तर विश्वविद्यालयी सहयोग की स्थापना तथा अनुसंधान अनुभाग और विश्वविद्यालय तथा अन्य स्थापना प्राप्त संस्थान के मध्य समझौता ज्ञापन की स्थापना (धारा 27(1))

उद्देश्य :

संविधान के अधिनियम 1985 के आधार पर स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय भी एक है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय अनेक पाठ्यक्रम जैसे स्नातक उपाधि, पाँच वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर, दो वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि, तथा अनुसंधान उपाधि प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में मानव संसाधनों, बौद्धिक संकाय सदस्यों तथा अनुसंधान टीम की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और भारत तथा विदेशों में स्थित अन्य संबंधित संस्थानों के मध्य समझौता ज्ञापन की स्थापना हो तथा अनुबंधन को अग्रेषित किया जाए। विश्वविद्यालय तथा अन्य संबंधित साझेदार संस्थानों की संयोगिक गतिविधियों को और सशक्त करने के लिए पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय ने पृथक अनुभाग की स्थापना के बारे में विचार किया है जिसे “ अंतर विश्वविद्यालयी सहयोग तथा अनुसंधान अनुभाग (IUCRC)” कहा जाएगा जो दावेदारों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश प्रदान करेगा। यह अनुभाग विश्वविद्यालय के सभी विभागों तथा भागीदार संस्थानों का

शीर्ष निकाय है जो अध्ययन कार्यक्रम, शोध अनुबन्धन तथा सभी प्रकार के सांस्कृतिक विनियम आदि योजनाओं को प्रस्तावित करेगा।

शीर्षक : इस अनुभाग को “अंतर विश्वविद्यालयी सहयोग तथा अनुसंधान अनुभाग” के नाम से जाना जाएगा तथा वह पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय का संघटक निकाय है।

अनुभाग के उद्देश्य :

इस अनुभाग के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :

- 1) प्रतिवर्ष - समाचार पत्रों, विवरणिका, प्रदर्शनी तथा कार्यालयी निरूपण द्वारा पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय के अकादमिक तथा शोध संबंधी गतिविधियों को अन्य ख्याति प्राप्त संस्थानों के समक्ष विख्यात किया जाए।
- 2) सहयोगिक संस्थानों की खोज करना तथा उन्हें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनुबन्धन के लिए निमंत्रित किया जाए।
- 3) समझौता ज्ञापन और नियम तथा विनियमों के मध्य पारस्परिक निर्धारित शर्तों पर हस्ताक्षर का आयोजन किया जाए।
- 4) प्रत्येक सहयोगिक गतिविधि हेतु कार्यकारी संकाय सदस्य को नामांकित कर उसकी व्यवस्था करे ताकि प्रगति का अनुवीक्षण किया जा सके।

5) परिसर में तथा अन्य संस्थानों में चयनित शैक्षणिक क्षेत्रों से संबंधित संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए तथा फण्टियर व्याख्यान, दोहरी डिग्री कार्यक्रमों का संचालन तथा भारत पढ़ों जैसे कार्यक्रम प्रदान करता है।

6) औद्योगिक निकायों से तथा अन्य मानव संसाधन विकास एजेंसियों, सरकारी विभागों तथा विदेशी एजेंसियों के साथ नयी योजनाओं के कार्यान्वयन तथा प्रयोजनन, छात्रावृत्ति, अनुसंधान अध्ययतावृत्ति तथा सांस्कृतिक विनिमय सुविधाओं हेतु अनुबंधन बनाएँ रखना।

शैक्षणिक विनिमय सलाहकार समिति (ए ई ए सी)

यह समिति सलाहकार निकाय है जो कार्य योजना, एम ओ यू (MoU) आधारित गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा सहयोग के नवीन आयामों का पता लगाना।

शैक्षणिक विनिमय सलाहकार समिति के नाम से इस अनुभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1) कुलपति - अध्यक्ष

2) निदेशक - सदस्य

(एस ई आई तथा आर आर)

3) निदेशक - सदस्य

(सी तथा सी आर)

4) निदेशक - सदस्य

(शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा, छात्र कल्याण)

5) विद्यालय के सभी डीन - सदस्य

6) रजिस्ट्रार - सदस्य

7) डीन, छात्र कल्याण - सदस्य

8) डीन, महाविद्यालय विकास - सदस्य

समिति

9) निदेशक (डी डी ई) - सदस्य

10) निदेशक - सदस्य

शैक्षणिक संकाय महाविद्यालय

11) वित्त अधिकारी - सदस्य

12) विधि अधिकारी - सदस्य

13) समन्वयक (IUCRC) - संयोजक सदस्य के रूप में एम

ओ यू (MoUs) के विशेष मामलों पर विचार

करने के लिए यह समिति साल में दो बार

साधारण बैठक तथा असाधारण बैठक रखेगी।

शैक्षणिक विनिमय सलाहकार समिति (ए ई ए सी) को यह अधिकार है कि वह विख्यात संस्थानों के प्रस्ताव का मूल्यांकन, संवीक्षा तथा सिफारिश करे ताकि वे सहयोगिक कार्यक्रम आयोजित करे और सहलग्नता स्थापित कर सके।

विश्वविद्यालय के विधि अधिकारी के सहचार्य में उपसमिति वर्तमान (एम ओ यू) की प्रगति का पुनर्विलोकन करेगा तथा एम ओ यू की समाप्ति पर नवीकरण के सन्दर्भ में भी जानकारी देगा।

संगठन :

आई यू सी आर सी कि संगठन व्यवस्था निम्नलिखित है :

- 1) समन्वयक - आई यू सी आर सी
- 2) सहायक रजिस्ट्रार - 1
- 3) कंप्यूटर आपरेटर - 1
- 4) परिचर/ सहायक - 1

समन्वयक :

विश्वविद्यालय में आई यू सी आर सी के समन्वयक मूलतः की तैनाती पूर्णकालिक आधार पर ही होगी। वे उस विश्वविद्यालय के वर्तमान संकाय सदस्य में ही एक आचार्य भी हो सकते हैं या फिर किसी ऐसे उद्योग से हो जिसको राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

गतिविधियों की सुचारू व्यवस्था करने में प्रचूर अनुभव है। योग्य उम्मीदवार की अनुपब्धता की स्थिति में विश्वविद्यालय दो वर्ष की अवधि के लिए समन्वयक को संविदा के तहत चुनाव कर सकती है तथा जिसकी अवधि को दो वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है।

प्रशासनिक स्टाफ :

उपर्युक्त अनुभाग में प्रशासनिक स्टाफ की न्यूनतम संख्या होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की उपलब्धता के अनुरूप ही स्टाफ की नियुक्ति होगी तथा भर्ती विश्वविद्यालय के प्रतिमानकों के आधार पर ही चुनाव होगा।

प्रकार्य तथा उत्तरदायित्व :

ए ई ए सी की सिफारिशों के आधार पर, सहयोगिक कार्यक्रमों का निर्विघ्न रूप से संचालन किया जाए न सिर्फ विश्वविद्यालय में बल्कि भागीदार संस्थानों में भी। यह अनुभाग दवेदारों, विशेषज्ञों, विद्यार्थियों, स्कूलर तथा भागीदार संस्थानों तथा योजनाओं की प्रगति आदि का अनुरक्षण करेगा। यह अनुभाग संस्थानों के मध्य आपसी समन्वय स्थापित करने तथा (MoU) एम ओ यू संबंधित गतिविधियों का समय पर पूर्णता का भी अनुवीक्षण करेगा। समीक्षा के आधार पर यह अनुभाग एम ओ यू के नवीकरण का भी प्रबंध करेगा। एम ओ यू के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु यह अनुभाग निम्नलिखित कार्य करेगा।

1) प्रशासनिक प्रबंधन :

यह केन्द्र विश्वविद्यालय प्रधिकरण से उचित तथा संस्वीकृति प्राप्त कर के प्रशासनिक कार्यविधियों से संबंधित प्रकार्यों का उचित पालन करेगा।

2) सांस्कृतिक विनिमय :

केन्द्र भागीदार संस्थानों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करेगा तथा बैठके भी आयोजित करेगा, सहयोगिता और अनुबंधन हेतु भारत तथा विदेशों में भी प्रदर्शनियों में भी भाग लेगा।

3) वित्तीय समझौते :

केन्द्र के पास एक बजट होगा जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया प्रचालन व्यय होगा।

4) अई पी आर संबंधित मामले :

केन्द्र बौद्धिक संपत्ति अधिकार, एकस्व अधिकार, कापीराइट तथा अन्य एम ओ यू के मानव पूँजीगत मामलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

5) अनुवर्ती या समाप्ति हेतु विधिक मामले :

यह केन्द्र दावेदारों के मध्य कानूनी जटिलता का परिहार करने के लिए तथा समन्वयन स्थापित करने जैसे मामलों को भी एम ओ यू में सम्मिलित करेगा।

अन्य विश्वविद्यालय तथा संस्थानों से समझौता ज्ञापन की तैयारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

अनुच्छेद 1

पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय और भारत तथा विदेशों में उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान आपसी सहयोग तथा संबंधों को विस्तृत तथा सुदृढ़ बनाने की पहल में अनुसंधान/उच्च शिक्षा के क्षेत्रों जिनमें की मानविकी, भाषाएँ, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन या अन्य विषयों के आपसी हित तथा विकास में अपना योगदान देंगे। दोनों संस्थानों ने बौद्धिक गतिविधियों के माध्यम से आपसी संबंध स्थापित करने हेतु संकाय सदस्यों/अनुसंधान स्कोलर/विद्यार्थी या अन्य कर्मिकों के विनिमय के माध्यम आदि का विनिमय किया है।

सहयोगिक क्रियाकलापों का मूल उद्देश्य अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना है जो दोनों संस्थानों के उपयोगी है। अन्य लोगों के मध्य आपसी सहयोग का मूल प्रयोजन है : i) आत्मविकास ii) संगोष्ठी iii) कार्यशाला iv) प्रशिक्षण कार्यक्रम v) शिक्षण कार्यक्रम vi) परियोजनाएँ vii) ग्रीष्म विद्यालय तथा viii) अनुसंधान सहयोग, ताकि स्नातकोत्तर शिक्षा कार्यक्रमों, वाचस्पति तथा अग्रिम अनुसंधान कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके।

निम्नलिखित माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है :

क) पारस्परिक तथा अन्योन्य आधार पर संयुक्त अनुसंधान क्रियाकलाप।

ख) शिक्षकों का विनिमय ।

ग) एम फिल तथा पीएच डी अनुसंधान छात्रों, स्नातकोत्तर छात्रों आदि का विनिमय ।

घ) अनुसंधान परियोजनाओं के सफलतापूर्ण समाप्ति पर सूचना तथा प्रकाशनों का विनिमय ।

अनुच्छेद 2

उपर्युक्त कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, प्रत्येक संस्थान में एक सलाहकार समिति के साथ समन्वय भी होगा, जो समझौता ज्ञापन के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार होगा ।

अनुच्छेद 3

पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय एक वरिष्ठ संकाय सदस्य को संयोजक के रूप में नियुक्त करेगा जो कोई अन्य पदभार न सम्भाले हो । इस व्यक्ति को चक्रानुक्रमानुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करेगा ।

अनुच्छेद 4

प्रत्येक एम ओ यू कार्यक्रम के संयोजक को सहयोगिक अनुभाग के निकटतम समन्वयन में कार्य करना होगा (रजिस्ट्रार सचिवालय का पी सी आर अनुभाग) । एम ओ यू संयोजन समिति के अध्यक्ष कुलपति होंगे ।

अनुच्छेद 5

प्रत्येक एम ओ यू संयोजक को साल में एक बार आवधिक प्रगति रिपोर्ट जमा करना होगा ।

अनुच्छेद 6

एम ओ यू के उपक्रम को अकादमिक तथा कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुच्छेद 7

एम ओ यू की अवधि ज्ञापन में हस्ताक्षर के तीन वर्ष तक होगी। तीन वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात्, ज्ञापन को आपसी सहमति हेतु नवीकृत किया जाएगा। संस्थान को यह अधिकार है कि वह इस अवस्था में अनुबंधन को समाप्त कर सकता है।

अनुच्छेद 8

एम ओ यू के अधीन विनिमय कार्यक्रम में संकाय सदस्य, स्कॉलर, विद्यार्थी तथा अनुसंधानक तथा अन्य कार्मिक भी भाग लेने के लिए पात्रता प्राप्त है।

अनुच्छेद 9

बहुविध निमंत्रण यदि किसी विभाग में उपलब्ध हो तो उसे संकाय सदस्यों की बैठक के आधार पर विभाग अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किया जाए, वह भी उचित माध्यम से, एक प्राथमिकता सूची संयोजक द्वारा कुलपति के समक्ष प्रस्तुत कि जाएगी, तथा वे ही उसकी नियुक्ति करेंगे।

अनुच्छेद 10

समझौता ज्ञापन के पश्चात्, पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण करेगा।

अनुच्छेद 11

वे जिनका आगमन विदेशों से पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय में बतौर संकाय सदस्य हुआ हो उनको समझौता ज्ञापन के तहत प्रति सत्र 750/- रू दिए जाएँगे, भारतीय संकाय सदस्य को 250/- रू तथा विदेशों से आये हुए विद्यार्थियों तथा अनुसंधान स्कोलर को 500/- रू दिया जाएगा तथा विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस/ छात्रावास/ विदेशी छात्र छात्रावास आदि में निशुल्क आवास प्रदान किया जाएगा। समय समय पर तथा यथावश्यक इस राशि का पुनर्विलोकन होगा।

अनुच्छेद 12

यात्रा भत्ता के अतिरिक्त समझौता ज्ञापन के अधीन जो दौरे पर जाता है उन्हें पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय शिक्षकों तथा अन्य कर्मिकों का पूरा वेतन देगी।

अनुच्छेद 13

पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय के आगंतुकों का आतिथ्य सत्कार मेजबान विश्वविद्यालय द्वारा उठाया जाएगा जो मुफ्त आवास तथा उचित अनुरक्षण भत्तों के रूप में होगा।

अनुच्छेद 14

पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा अन्य कर्मिकों को समझौता ज्ञापन के तहत अन्य संस्थानों में दौरे पर जाने के लिए तीस दिन की अवधि तक का समय बतौर कार्यार्थ छूट्टी दी जाएगी। यदि यह दौरा ग्रीष्म अवकाश में हो तो कार्यार्थ छूट्टी को सम्मिलित कर कुल 60

दिनों की अवधि स्वीकृत की जाए । ग्रीष्म अवकाश में अधिकतम् तीस दिनों की छूट्टी को कार्यार्थ छूट्टी के रूप में ही लिया जाएगा ।

अनुच्छेद 15

दोहरी वाचस्पति उपाधि और संयुक्त पर्यवेक्षण की अनुमति दी जा सकती है । जिन कार्यक्रमों का उल्लेख समझौता ज्ञापन में हो सकता है ।

अनुच्छेद 16

दौरे के पश्चात् परिणामों के प्रकाशन को प्रेषित किया जाए ।

अनुच्छेद 17

विनिमय विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम तथा उनकी सलग्नता /प्रविष्टता आदि के बारे में विभाग द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा । विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए क्रेडिट्स को दौरे की समाप्ति पर संबंधित मूल विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ।

अनुच्छेद 18

मेजबान विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को नियमित/ विदेशी छात्रावास में ठहरने की अनुमति दी जाए और इसका कार्यभार उससे न लिया जाए तथा उन्हें विनिमय विद्यार्थी के प्रबंधन की पूर्ति हेतु छात्रवृत्ति दी जाए ।

अनुच्छेद 19

वे विद्यार्थी जो विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं वे मेजबान विश्वविद्यालय को किसी भी तरह का शुल्क न दे उनको पहचान पत्र दिया जाए तथा विश्वविद्यालय के अन्य विद्यार्थियों की भान्ति वे भी पुस्तकालय, मनोविनोद क्लब, फिल्म क्लब तथा अन्य सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं ।

अनुच्छेद 20

मेजबान विश्वविद्यालय में आगमन के पहले विनिमय विद्यार्थी को अपना बीमा प्रीमियम कराना होगा तथा उस प्रीमियम का धारक स्वयं वह विद्यार्थी होगा ।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थियों के अंतरराष्ट्रीय यात्रा की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी । मेजबान विश्वविद्यालय इनके विश्वविद्यालय परिसर तक के आने तथा जाने का प्रबंध करेगा । वापसी के लिए भी इसी प्रकार होगा ।

अनुच्छेद 22

विनिमय की अवधि तक विद्यार्थी साधारण शुल्क तथा अन्य कार्यभार अपने विश्वविद्यालय को देगा न कि मेजबान विश्वविद्यालय को ।

अनुच्छेद 23

संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम पाठ्यक्रम में एकस्व तथा वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु संयुक्त रूप से रजिस्टर किया जाए । यदि एक पार्टी किसी भी प्रकार के दावे का परित्याग करती है या 90 दिनों की अवधि तक कोई उत्तर नहीं देती, तो दूसरी पार्टी का यह हक बनता है कि वह अपने नाम पर रजिस्टर कर ले ।

एसू लोगनाथान्

कुलसचिव

पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालय

**PONDICHERRY UNIVERSITY
PUDUCHERRY**

No.PU/Aca-I/Amendments/2009-10/ - In exercise of the power conferred by Section 27 of the Pondicherry University Act 1985 (53 of 1985) and as approved by the authorities of the University, the Academic council and the Executive Council, and as consented to by the Visitor (President of India) of the University, the following amendments to the, "Ordinances Governing Academic matters" is published below as per requirement under Section 44 of the University Act.

I AMENDMENTS TO THE ACADEMIC ORDINANCES:

In Chapter I Clause 2 shall be substituted as follows:

2. The following colleges/institutions stand admitted to the privileges of the Pondicherry University

ARTS & SCIENCE COLLEGES

1. Tagore Arts College, Puducherry
2. Arignar Anna Government Arts College, Karakial
3. Jawaharlal Nehru Rajkeeya Mahavidyalaya, Andaman & Nicobar Islands
4. Bharathidasan Govt. College for Women, Puducherry
5. Mahatma Gandhi Govt. Arts College, Mahe
6. Avvaiyar Govt. College for Women, Karaikal
7. Dr. S.R.K. Govt. Arts College, Yanam
8. Kanchi Mamunivar Centre for PG Studies, Puducherry
9. Mahatma Gandhi Government College, Mayabunder
10. Rajiv Gandhi Arts and Science College, Puducherry
11. Perunthalaivar Kamarajar Govt. Arts Collge, Puducherry
12. Divine Mother College, Puducherry
13. Indira Gandhi College of Arts & Science, Puducherry

14. Saradha Gangadharan College, Puducherry
15. Achariya Arts and Science College, Puducherry
16. Idhaya College of Arts and Science for Women, Puducherry
17. Kasthurba College for Women, Puducherry
18. Rathnavel Subramanian College of Arts and Science, Karaikal

EDUCATION COLLEGES

1. Pope John Paul II College of Education, Puducherry.
2. Tagore Government College of Education, Andaman & Nicobar Islands.
3. Sree Narayana College of Education, Mahe.
4. Immaculate College of Education for Women, Puducherry.
5. Usha Latchumanan College of Education, Puducherry.
6. Achariya College of Education, Puducherry.
7. Perunthalaivar Kamarajar College of Education, Karaikal.
8. Alpha B.Ed. College, Puducherry.
9. Arutperunchothi Ramalingasammy College of Education, Puducherry.
10. Don Bosco College of Education and Research Institute, Karaikal
11. Dr. Anbu Paul College of Education, Puducherry
12. Loyola Institute of Teacher Education, Puducherry
13. Krishnasamy College of Education for Women, Puducherry
14. Mahe Co-operative College of Teacher Education, Mahe
15. Nehru College of Education, Puducherry
16. Regency College of Education, Yanam
17. Vasavi College of Education, Puducherry
18. Venkateswara College of Education, Moolakulam, Puducherry.
19. Venkateswara College of Education, Madagadipet, Puducherry
20. Vivekananda College of Education, Puducherry
21. Co-operative College of Education, Puducherry
22. Senthil College of Education, Puducherry
23. Sabari College of Education, Puducherry
24. Amarnath College of Education, Karaikal

25. N.T.S. College of Education, Puducherry
26. Sri Sai Ram College of Education, Puducherry
27. St. Anne's College of Education & Research Centre, Puducherry
28. TVR College of Education, Puducherry
29. Dr. Kalaikannan College of Education for Women, Puducherry
30. RVS College of Education, Puducherry
31. Sri Venkateswara College of Education, Karaikal

ENGINEERING COLLEGES

1. Pondicherry Engineering College, Puducherry
2. Bharathiyar College of Engineering and Technology, Karaikal
3. Rajiv Gandhi College of Engineering & Technology, Puducherry
4. Sri Manakula Vinayagar Engineering College, Puducherry.
5. Regency Institute of Technology, Yanam
6. Christ College of Engineering & Technology, Puducherry
7. Perunthalaivar Kamarajar Institute of Engineering & Technology,
Karaikal
8. Manakula Vinayagar Institute of Technology, Puducherry

MEDICAL COLLEGES

1. Pondicherry Institute of Medical Sciences, Puducherry
2. Sri Manakula Vinayagar Medical College and Hospital, Puducherry
3. Sri Venkateswara Medical College Hospital and Research Centre,
Puducherry

PARAMEDICAL / NURSING COLLEGES

1. Mother Theresa Post Graduate and Research Institute of Health
Sciences, Puducherry
2. College of Nursing, PIMS, Puducherry
3. Kasturba Gandhi College of Nursing, Mahatma Gandhi Medical
College & Research Institute Campus, Puducherry.

4. Sabari College of Nursing, Puducherry.
5. Sri Manakula Vinayagar Nursing College, Puducherry.
6. Indirani College of Nursing, Puducherry.

DENTAL COLLEGES

1. Mahatma Gandhi Post Graduate Institute of Dental Sciences,
Puducherry
2. Indira Gandhi Institute of Dental Sciences, Puducherry

VETERINARY COLLEGE

1. Rajiv Gandhi College of Veterinary and Animal Sciences,
Puducherry

ART & CULTURE COLLEGE

1. Bharathiar Palkalaikoodam, Puducherry

LAW COLLEGE

1. Dr. B.R. Ambedkar Govt. Law College, Puducherry
2. Sri Balaji Law School, Puducherry

RESEARCH INSTITUTES

1. Vector Control Research Centre (ICMR)
2. Regional Medical Research Centre (ICMR), Andaman &
Nicobar Islands

In Chapter XIX 1a, b, c, d, e and 8a, b shall be inserted as follows:

1. a. A Convocation for the purpose of conferring degrees shall ordinarily *Annual* be held once in a year on such date and place as may be fixed by the *Convocation* Vice-Chancellor with prior approval of the Chancellor.
 - b. At the beginning of each academic year, the University shall announce its academic calendar, giving the schedules for all its activities during the year ;
 - c. The academic calendar of the University shall in addition to the schedules for academic activities like courses and Examinations, the calendar shall also include the date/s for degree awards ;
 - d. If necessary, the University may schedule Degree awards more often than once in a year and the same shall be included in its academic calendar ;
 - e. The Degree award date/s shall be within 180 days of the date/s by which the students are expected to qualify and become eligible for them ;
-
8. a. A candidate for the degree must submit to the Registrar his/her *Application* application on or before the date prescribed for the purpose, for admission to the degree at the Convocation in person, along with the prescribed fees.
 - b. The University shall notify a programme for Degree awards at least 30 days before the date/s so fixed, so that the candidate can apply for the same ;

In Chapter XX Annexure II 1.4.1 Note and 3.3.0 Note (4) shall be substituted as follows:

“NET/SLET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment of lecturers in Universities/ Colleges / Institutions.

Provided, however that the candidates, who have been awarded Ph.D. degree strictly in accordance with “University Grants Commission (minimum standards and procedure for award of Ph.D. Degree), Regulation 2008, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET for recruitment of lecturers in Universities/ Colleges/Institutions”.

Appendix-I shall be substituted as follows:**APPENDIX – I****Inspection Committee fund, affiliation fund, endowment etc.****Inspection Committee Fund (Local Inspection Committee)**

First Visit	:	Rs. 15,000/- + TA/DA & Honorarium @ Rs. 1,000/- per Committee member
Second Visit	:	Rs. 15,000/- + TA/DA & Honorarium @ Rs. 1,000/- per Committee member

Late Fund :

Upto 15 days	:	Rs. 25,000/-
Upto 30 days	:	Rs. 50,000/-

Beyond 30 days Rs. 50,000/- + Rs. 2,000/- per
day for a period of one month till closure.

1.i.a) Affiliation fund (initial: 1 st year) Arts & Science (UG)	:	Rs. 50,000 upto 5 courses (initial strength 40)
b) Affiliation fund for further courses Arts & Science (UG)	:	Rs. 15,000/- per course
c) Affiliation fund for additional strength Arts & Science (UG)	:	Rs. 5,000/- (50 or part thereof and in multiples thereof)
ii.a) Affiliation fund (initial: I year) Arts & Science (PG)	:	Rs. 75,000/- 10-15 students
b) Affiliation fund for further courses Arts & Science (PG)	:	Rs. 25,000/- per course
c) Affiliation fund for additional strength Arts & Science (PG)	:	Rs. 5,000/- (10 or part thereof and in multiples thereof)

-
- 2.(i) a) **Affiliation fund (initial) I year** : Medical (UG: upto 100 seats)
:Rs. 7,50,000/-
- b) **Affiliation fund for additional strength Medical (UG)** : Rs. 1,00,000/- (for units
or part thereof and in
multiples thereof)
- (i)ii a) **Affiliation fund (initial) Medical (PG)/Dental** : Rs. 5,00,000/-
(PG) including super specialty in units of 4
- (i)ii b) **Affiliation fund for additional strength Medical** : Rs. 1,00,000/- (for units of
(PG)/Dental (PG) including super specialty in units 4 or part thereof and in
of 4 multiples thereof)
- (ii) a) **Affiliation fund (initial) for Engineering/** : Rs. 3,00,000/-
Dental (UG) maximum 3 courses of 60
Students.
- (ii) b) **Affiliation fund for further courses for** : Rs. 50,000/-
Engineering/Dental (UG)

-
- | | |
|---|------------------|
| (ii) c) Affiliation fund for additional strength for Engineering / Dental (UG) (for additional 60 or part thereof and in multiples thereof) | : Rs. 1,00,000/- |
| (ii)i.a) Affiliation fund ([initial] I year) Engineering (PG) per course with 25 students | : Rs. 1,50,000/- |
| (ii)i.b) Affiliation fund for additional strength for Engineering (PG) (from 25-50 students and in Multiples thereof) | : Rs. 50,000/- |
| (iii)a) Affiliation fund (initial I year) Law (UG) for a unit of 80 students | : Rs. 1,00,000/- |
| (iii)b) Affiliation fund for additional strength for Law (UG) from 81-120 students and in multiples thereof | : Rs. 50,000/- |
| (iii)i a) Affiliation fund (initial I year) Law PG per course for a unit of 10 students | : Rs. 1,50,000/- |
| (iii)i b) Affiliation fund for additional strength for Law (PG) from 11-20 students and in multiples thereof | : Rs. 50,000/- |
| (iii)ii a) Affiliation fund (initial I year) B.Ed/B.Ed (integrated) 100 students per courses | : Rs. 5,00,000/- |
| (iii)ii b) Affiliation fund for additional strength for B.Ed/B.Ed (integrated) from 101-160 students and in multiples thereof | : Rs. 1,00,000/- |
| (iii)iii a) Affiliation fund (initial I year) M.Ed course for 30 Students | : Rs. 7,50,000/- |
| (iii)iii b) Affiliation fund for additional strength for M.Ed Course from 31-50 students and in multiples thereof | : Rs. 2,50,000/- |
| (iii)iv a) Affiliation fund (initial I year) Veterinary/Agriculture (UG) for 60 Students | :Rs. 3,00,000/- |
| (iii)iv b) Affiliation fund for additional strength for Veterinary/Agriculture (UG) from 61-90 students and in multiples thereof | : Rs. 1,00,000/- |

(iii)v a) Affiliation fund (initial I year) Paramedical B.Pharm/BPT., B.Sc. (Nursing) etc. course per unit of 100 students	:Rs. 3,00,000/-
(iii)v b) Affiliation fund for additional strength for Paramedical B.Pharm/BPT., B.Sc. (Nursing) etc. from 101-160 and in multiples thereof	:Rs. 1,00,000/-
(iii)vi a) Affiliation fund (initial I year) for other PG Professional courses MCA/MBA/M. Pharm/MVSc/M.Sc.(Agri) etc. upto 60 seats	:Rs. 2,50,000/-
(iii)vi b) Affiliation fund for additional strength for other PG Professional courses MCA/MBA/M. Pharm/ MVSc/M.Sc.(Agri) etc.from 61-120 and in multiples thereof	:Rs. 1,00,000/-
(iii)vii a) Affiliation fund (initial I year) M.Phil upto 5 courses with 10 seats per course	: Rs. 2,50,000/-
(iii)vii b) Affiliation fund per course for additional strength for M.Phil for 10-15 and in multiples of 5 thereof	: Rs. 5,000/-
(iii)viii a) Affiliation fund (initial I year) Ph.D. upto 5 courses	: Rs. 2,50,000/-

Affiliation fund for continuation of Provisional Affiliation per course

3.I. Arts & Science: (UG)	: Rs. 10,000/-
I (ii) Law (UG) for a unit of 80 students	: Rs. 10,000/-
I (iii) a. Arts & Science PG (per course)	: Rs. 10,000/-
b. Medical (UG) (per course)	: Rs. 1,50,000/- (for 100 seats for more seats upto 50, or part thereof Rs. 75,000/- and in multiples thereof)
c. Medical (PG)/Dental (PG) including super specialty in units of four	: Rs. 50,000/- Rs. 25,000/- for 4 more or part thereof and in multiples thereof.

d. Engineering/Dental (UG) Maximum: 3 courses @ 60 students per course	: Rs. 50,000/-
For each additional 60 students or part thereof: per course	: Rs. 10,000/-
e. Engineering (PG) per course with 25 students	: Rs. 25,000/-
f. Law PG: Per course for a unit of 10 students	: Rs. 10,000/-
g. B.Ed./B.Ed(Integrated) upto 100 students per course	: Rs. 50,000/-
h. M.Ed. per 30 students	: Rs. 50,000/-
i. Veterinary /Agriculture (UG) for 60 students	: Rs. 60,000/-
j. Paramedical: B.Pharm/BPT/B.Sc. Nursing etc. per course per unit of 100 students.	: Rs. 75,000/-
k. Other PG Professional courses MCA/MBA/M.Pharm/MVSc/M.Sc(Agri) etc. upto 60 seats	: Rs. 20,000/-
l. M.Phil upto five Additional course Rs. 5,000/- per course	: Rs. 20,000/-
m. Ph.D. upto five course Additional course Rs. 5,000/- per course	: Rs. 20,000/-

3.II Affiliation fund for each new course in subsequent years

(i) Arts & Science (per course) (under graduate)	Rs. 20,000/-
(ii)	
a) Medical (under graduate)	-NIL-
b) Engineering / Dental (under graduate) Maximum of 3 courses @ 60 students per course	Rs.1,00,000/-

For more than 60 students or part thereof per course	Rs.50,000/-
c) Law (under graduate)	N.A.
d) B.Ed/B.Ed (Integrated)	N.A.
e) Verterinary/Agriculture (undergraduate)	N.A.
f) Para Medical B.Pharm/BPT/B.Sc(Nursing) etc., per course per Unit of 100 students	Rs.50,000/-
(iii)	
(a) Arts & Science (PG) 10 to 15 students	Rs.50,000/-
(b) M.Phil upto 10 seats per programme	Rs.20,000/-
(c) Ph.D per programme	Rs.5,000/-
(a) i) Medical P.G./Dental P.G. including Super specialty courses in units of 4	Rs. 2,00,000/-
ii) For 4 more or part thereof	Rs. 1,00,000/-
(b) Engineering (PG) per course with 25 students	Rs. 1,00,000/-
(c) Law (PG) per course for a unit of 10 students	Rs. 25,000/-
(d) M.Ed per 30 students	N.A.
Other PG Professional Courses MCA/MBA/M.Pharm/MVSc/M.Sc(Agri) etc., upto 60 seats	Rs. 80,000/-

4. Permanent Affiliation Fund/ Norms for the Colleges

	Permanent affiliation fund	Permanent affiliation fund upto 5 years Rs.	Permanent affiliation fund for each additional course Rs.
(i)	Arts & Science (UG) (for 5 courses) Arts & Science (PG) (for 5 courses) 10 – 15 students	1,00,000/-	20,000/-
(ii)	Medical (UG) upto 100 seats	15,00,000/- (for 100 students) 7,50,000/- for additional 50 or part thereof	As indicated in previous column
(iii)(a)	Medical (PG)/ Dental PG Including super specialty in units of 4 per course	4,00,000/-	4,00,000/-
(b)	Additional 4 students or part thereof	2,00,000/-	2,00,000/-
(iv)	Engineering/Dental (UG) Maximum 3 courses @ 60 students per course For 60 more or part thereof	2,00,000/- 1,00,000/-	2,00,000/- 1,00,000/-
(v)	Engineering PG per course with 25 students	2,00,000/-	2,00,000/-
(vi)	Law (UG) for a Unit of 80 students per course	1,00,000/-	1,00,000/-
(vii)	Law (PG) for a Unit of 10 students per course	1,00,000/-	1,00,000/-
(viii)	B.Ed/B.Ed (Int) upto 100 students per course	5,00,000/-	5,00,000/-
(ix)	M.Ed (per 30 students)	5,00,000/-	5,00,000/-
(x)	Veterinary/Agriculture UG for 60 Students per course	6,00,000/-	6,00,000/-
(xi)	Paramedical: BPharm/BPT, B.Sc (Nursing) etc. per course per unit of 100 students	5,00,000/-	1,00,000
(xii)	Other PG Professional courses MCA/MBA/MPharm/MVSc/M.Sc.(Agri) etc. upto 60 seats per course	80,000/-	50,000/-
(xiii)	M.Phil/Ph.D. upto 10 seats for 5 courses	80,000/-	50,000/-
(xiv)	Ph.D. for 5 courses	80,000/-	50,000/-

NORMS FOR GRANT OF PERMANENT AFFILIATION

- i. Three consecutive batches of students should have passed out in the concerned discipline for which permanent affiliation is sought.
- ii. The institution should show evidence for unencumbered own land and building as per the prescribed affiliation norms at the time of grant of affiliation. The legal opinion from the Government pleader for the ownership of the land should also be produced.
- iii. The institution should have appointed (at least 80%) teachers on a regular basis in the concerned discipline and paid as per the pay scales prescribed by the Government/statutory organizations. Such teachers should possess the qualification prescribed by the UGC/respective statutory organization. The records of the same should be maintained.
- iv. The institution should have fulfilled all the conditions and followed all the rules and regulations prescribed by the University for the grant of affiliation.
- v. If there are any incidents of violations of conditions prescribed for the grant of affiliation noticed by the University, then, the University reserves the right to suspend the affiliation of the Institution for a prescribed period which would be decided by the committee, based on the nature of violation.
- vi. The Institution should not collect either directly or through any of its associated trust etc., any capitation fee or donation from any of its students or employees except the fee and other charges prescribed by the University/ Government.
- vii. The Management of an unaided college shall have its accounts audited at the end of each financial year by a registered chartered accountant. A copy of the annual accounts shall be made available alongwith the audit report to the University for inspection within six months from the closure of the financial year.
- viii. Admission should be made in accordance with the guidelines issued by the University/Government from time to time.
- ix. The University reserves the right to inspect the Institution at any time for continuance of affiliation.

- x. The Institution should maintain all the registers and records and statistical data required to be maintained under University regulations/rules and should be made available as and when required by the University.
- xi. The institution should submit its application for grant of permanent affiliation in the prescribed format available in the website www.pondiuni.edu.in on or before 1st October of the preceding academic year.
- xii. Any change affecting the college's permanent affiliation status either in terms of faculty position or infrastructure facilities brought to the notice of the University would automatically lead to disqualification.
- xiii. All dues to the University should have been promptly paid by the college seeking permanent affiliation.
- xiv. There should not be any persistent defects in the college for three years prior to the request for permanent affiliation.

Note: (i) The grant of permanent affiliation will be subject to review once in five years and the fund may be paid accordingly once in five years

- (ii) The minimum requirement of availability of regular teachers may be decided by the inspection committee, taking into account long term contract / adhoc appointments, particularly in the Government colleges.

Existing provision for endowment and land for new colleges / courses

Endowment: The details of Endowments to be created to open new College or by Colleges seeking to start new course shall be as given below:

Endowment: Fifty percent of the endowment should be shown in the form of fixed deposit invested in nationalized bank or scheduled bank in the joint names of the Registrar, Pondicherry University and the Management of College and the balance Fifty percent may be shown by the Management of the College in the form of property. This should be in the form of unencumbered assets fetching annual income. Both the income, i.e., annual interest from the fixed deposit and the annual income from the unencumbered assets should be spent only for the maintenance of the College.

Endowment required for further courses: (the endowment may be paid in instalments, two instalments for under graduate courses and four installments for post-graduate courses, if such requests are received from the Management).

Definition of Assets: Unencumbered Properties, College Buildings, Staff Quarters, Hostels, Agricultural lands

Endowment / Deposits for starting New Colleges				
(i)	Arts/Humanities/Social Sciences	Rs.	25,00,000	(50% in Cash & & 50% in property)
(ii)	Medical	Rs.	1,00,00,000	(50% in Cash & & 50% in property)
(iii)	Engineering	Rs.	75,00,000	(50% in Cash & & 50% in property)
(iv)	Dental, etc.	Rs.	75,00,000	(50% in Cash & & 50% in property)
(v)	Education	Rs.	25,00,000	(50% in Cash & & 50% in property)
(vi)	Physical Education	Rs.	15,00,000	(50% in Cash & & 50% in property)
(vii)	Veterinary	Rs.	50,00,000	(50% in Cash & & 50% in property)
(viii)	Agriculture	Rs.	30,00,000	(50% in Cash & & 50% in property)
(ix)	Hotel Management	Rs.	30,00,000	(50% in Cash & & 50% in property)
(x)	Sciences	Rs.	30,00,000	(50% in Cash & & 50% in property)
(xi)	Paramedical	Rs.	30,00,000	(50% in Cash & & 50% in property)
(xii)	Management	Rs.	50,00,000	(50% in Cash & & 50% in property)

Note: The terms of creation of endowment and utilization of income / interest remain unchanged. Only the respective amount has been changed.

Endowment Required for additional Courses in existing Colleges		
i)	Arts, Humanities & Sciences	Rs.
	B.A. – any main subject	1,00,000
	B.Sc. – any main subject	3,00,000
	B.Com. – Degree Course	2,50,000
	M.A. – any subject	2,50,000
	M.Sc. – any subject	5,00,000
	M.Com. – Degree Course	2,50,000
ii)	Medical Post Graduate Degree/Diploma/Super Specialty Course	25,00,000
iii)	Engineering, Management, MCA/MBA/equivalent	
	(i) For each branch of Under Graduate Level	5,00,000

	(ii) For each branch of Post Graduate Level	7,50,000
iv)	Dental, Pharmacy, Nursing, Law, etc.	10,00,000
v)	Education M.Ed.,	5,00,000
vi)	Physical Education M.P.Ed	5,00,000

Note: The terms of creation of endowment and utilization of interest remain unchanged only the respective amount has been changed.

Note: For Home Science (at under-graduate) each branch shall be treated as separate course for purpose of endowment. The requirement of endowment for starting courses by established Colleges may be exempted provided they show adequate income for running the new courses.

"Established College" shall mean a college satisfying the following norms:-

- (a) A College having been established for the past 25 years.
- (b) A College having a minimum student strength of 1,000.
- (c) A College having a minimum of 10 departments (Under-graduate and Post-graduate)
- (d) A College having assets worth Rs. 20 lakhs.

Land requirement for starting various Colleges/Institutions:

College of Arts, Humanities and Sciences (including colleges offering three year catering and hotel management courses):

Suitable single plot of land measuring not less than five (5) acres owned and possessed by the applicant or possessed by way of 99 years lease for construction of the college.

Medical College:

Suitable single plot of land measuring not less than 25 acres owned and possessed by the applicant or is possessed by way of 99 years lease for the construction of the college.

Dental College

Suitable single plot of land measuring not less than 10 acres owned and possessed by the applicant or possessed by way of 99 years lease for the construction of the college.

Paramedical College:

Suitable single plot of land measuring not less than 5 acres owned and possessed by the applicant or possessed by way of 99 years lease for the construction of the college.

Engineering College:

A new engineering institution located in non-metro location will have a land of about 20 acres at its disposal and 10 acres in the case of institution located in a metro location before starting.

Teachers' College:

A total of land measuring not less than 5 acres owned and possessed by the applicant or possessed by way of 99 ways lease for the construction of the college.

Law College:

A total of land measuring not less than 10 acres owned and possessed by the applicant or possessed by way of 99 years lease for the construction of the college.

Physical Education College

A total of land measuring not less than 10 acres owned and possessed by the applicant or possessed by way of 99 years lease for the construction of the college.

The Vice-Chancellor is authorized to make changes in the land requirements wherever necessary as per the requirements specified by the Statutory Bodies concerned.

***New Chapter (Chapter XXII) to be inserted as follows:-
Establishment of Inter University Collaboration and Research
Cell and Guidelines for Establishing Memorandum of
Understanding between the University and other Institution of
Repute. [Section 27(1)]***

Purpose:

Pondicherry University is one of the Central Universities established during 1985 by an Act of Parliament. The University presently offers a large number of courses leading to award of Under Graduate Degrees, Five year Integrated Masters, Two year Master Degrees and Research Degrees. The growing number of human resource, intellectual faculties and research teams of the University and other respected Institutions in India and Abroad frequently lead into the establishment of MoUs, and linkages. In order to strengthen the collaborative activities of the University and the respective partner Institutions, Pondicherry University intends to establish a separate Cell named as "Inter-University Collaboration and Research Cell" (IUCRC) to provide guidelines and avenues to the stakeholders for an effective implementation of the proposed schemes. This Cell is a nodal body for all departments of the University and partner Institutions to propose schemes of study programmes, research linkage and all of types of Cultural exchanges.

Title : This Cell is named as "Inter-University Collaboration and Research Cell" and is one of the constituent bodies of Pondicherry University.

Objectives of the Cell:

The Cell shall have the following major objectives:

1. To popularize the academic and research activities of Pondicherry University to other Institutions of repute, every year, through its Newsletter, Brochures, exhibitions and official demos.
2. To identify the collaborating Institutions and invite them for arranging Linkages with the departments of the University, for specified purposes.
3. To organize signing of MoUs with mutually agreeable terms and conditions.
4. To arrange to nominate the respective faculty-in-charge of each collaborative activity and monitor the progress.
5. To organize Joint Programmes on Campus and other Institutions on selected Academic areas and conduct frontier lectures, dual degree programmes and twinning programmes as per regulations and to offer Study India programmes.

6. To maintain Linkages with industries and other Human Resource Development (HRD) agencies, Government departments and overseas agencies for implementing new schemes and obtaining sponsorships, scholarships, Research Fellowships and Cultural Exchange facilities

Academic Exchange Advisory Committee (AEAC):

This Committee is an advisory body to propose action plans, implement MoU based activities and explore new avenues of Collaboration.

The Cell shall have the following members under the name of Academic Exchange Advisory Committee:

1. Vice Chancellor	-Chairman
2. Director (SEI&RR)	-Member
3. Director (C & CR)	-Member
4. Director (Physical Education, Sports, National Service, and Student Welfare)	-Member
5. All Deans of Schools	-Members
6. Registrar	-Member
7. Dean, Students Welfare	-Member
8. Dean, College Development Council	-Member
9. Director, DDE	-Member
10. Director, Academic Staff College	Member
11. Finance Officer	-Member
12. Law Officer	-Member
13. Co-Ordinator-IUCRC	-as Member Convenor

This Committee shall meet at least twice in an year to hold ordinary meetings and extraordinary meetings to consider special cases of MoUs.

The Academic Exchange Advisory Committee (AEAC) shall have the authority to evaluate, scrutinize and recommend the proposals of institutions of repute for conducting collaborative programmes and for establishing linkages. It shall constitute sub committees to look into the progress, review of existing MoUs and renewal of expiring MoUs, in association with the Law Officer of the University.

Organization:

The IUCRC shall have the following organizational set up:

1. Co-ordinator	-	IUCRC
2. Assistant Registrar / SO	-	1
3. Computer Operator	-	1
4. Attendant / Helper	-	1

Co-ordinator:

There shall be a Co-ordinator of IUCRC on fulltime basis of the University at Professor cadre redeployed from the existing faculty of the University or an industry with enough experience in arranging collaborative activities at National / International level. In case of non-availability of suitable candidates, the University may select the co-ordinator on contract basis for a period of 2 years extendable upto one more year.

Administrative Staff:

The cell shall have the minimum number of administrative staff as presented above. These staff shall be deputed from the University administration as per availability and shall be recruited on contract basis through a selection committee constituted as per University's norms.

Functions and Responsibilities:

The cell as per the recommendations of the AEAC, shall carry out all the necessary functions required to smoothly conduct the collaborative programmes not only in the University but also in the partner Institutions. The Cell shall maintain all records of the stakeholders, resource persons, students, scholars and partner Institutions and the reports of the schemes in progress. The Cell shall maintain proper co-ordination among the Institutions and ensure timely completion of the MoU related activities. The cell shall, based on the review, make arrangements to renew the MoUs. The cell shall carry out the following for effective implementation of the MoUs.

1. Administrative Arrangements:

The centre shall follow the administrative procedures of the University in relation to all its functions by obtaining proper appropriates and sanction from the authorities.

2. Cultural Exchange :

The centre shall conduct programmes of relevance to the participating institutions and conduct meetings, participate in exhibitions in India and abroad for obtaining new collaborations and linkages.

3. Financial Arrangements :

The centre shall have a budget for its operational expenses provided from the University.

4. IPR Related Issues :

The centre shall take all necessary steps to maintain Intellectual Property Rights, Patent Rights, Copyrights and other human capital related issues in the MOUs.

5. Legal Issues for Continuative or Termination :

The centre shall take all steps to maintain the co-ordination among the stakeholders for avoiding legal complications and include such items in the MOU.

GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH OTHER UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS**Article 1**

Pondicherry University and academic institution of higher learning in India or abroad agree to broaden and deepen their mutual co-operation and pedagogical relations in the interest of contributing to the development of research/higher education in the fields of humanities, languages, science, social sciences, management or any other discipline as of mutual interest. The two institutions will endeavour to establish relationships within the areas of scholarly activities through exchanges of faculty/research scholars/students or any other personnel that both institutions deem fit.

The specific objective of the collaborative endeavour is to develop research and training programmes beneficial to both the institutions. Co-operation among others shall be for the purposes of (i) curriculum development (ii) seminars (iii) workshops (iv) training programmes (v) teaching programmes (vi) projects (vii) summer schools, and (viii) research collaboration, to effectively implement the post-graduate study programmes, doctoral and advanced research programmes.

These are to be achieved by way of:

- (a) joint research activities on a mutual and reciprocal basis,
- (b) exchange of teachers,
- (c) exchange of M.Phil. and Ph.D. research scholars, post-graduate students, etc., and
- (d) exchange of information and publication on the successful completion of the research project(s).

Article 2

To implement the programmes mentioned above, each institution shall form an advisory committee with a co-ordinator, who shall be responsible for effective implementation of the MOU.

Article 3

Pondicherry University shall appoint a senior faculty member as the Co-ordinator not holding any other position. This person shall be appointed for a period of three years by way of rotation.

Article 4

Co-ordinators of the Programme for each MOU shall work in close co-ordination with the Collaboration Cell (PCR Cell in the Registrar's Secretariat). The Vice-Chancellor shall be the Chairman for all Co-ordination Committee of MOUs.

Article 5

The concerned Co-ordinator of every MOU should submit a periodical progress report, at-least once in a year

Article 6

The undertaking of each MOU is subject to the approval by the Academic Council and the Executive Council.

Article 7

The period of the MOU shall be for three years from the date of signing of the memorandum. On completion of the three year period, the memorandum may be renewed by mutual consent. Either institution reserves the right to terminate the agreement at that stage.

Article 8

The faculty/scholars/students/researchers and any other personnel are eligible to participate in the exchange programme under MOU.

Article 9

In case of multiple invitations available to any department, based on the decisions made in the faculty meeting, HOD shall forward, through proper channel, a priority list to the coordinator who shall, in turn, place it before the V.C. for decision as to who should be deputed.

Article 10

While entering into MOU, Pondicherry University shall follow guidelines issued by UGC/MHRD, Govt. of India from time to time.

Article 11

Those, from abroad, who visit Pondicherry University under the MOU will be paid per diem of Rs.750/- for faculty from abroad, Rs.250/- for Indian faculty and Rs.500/- for students and research scholars from abroad by Pondicherry University and free accommodation in the University guest house/transit

hostel/foreign student hostel, etc. This amount shall be reviewed from time to time as and when required.

Article 12

In addition to meeting travel expense of those going to other Universities under the MOU, Pondicherry University shall also pay the salary of the teachers(s) and other personnel in full for the duration of the visit.

Article 13

The local hospitality of the visitors from Pondicherry University shall be borne by the host University in the form of free accommodation and reasonable maintenance allowance.

Article 14

The teachers and other personnel from Pondicherry University, proposing to visit the institution mentioned in the MOU, may be given duty leave for a period up to 30 days for the visit. If the visit is made during the summer vacation of Pondicherry University, duty leave including the period spent on summer vacation may be granted for a period up to 60 days. Leave taken in excess of the summer vacation, not exceeding 30 days, shall be treated as duty leave.

Article 15

Dual doctoral degree programmes and joint supervisorship may be permitted. Such programmes shall be mentioned in the MOU.

Article 16

Any publication resulting from the visit should duly be acknowledged.

Article 17

The course of study which the exchange students have to undergo will be determined by the department to which the students will be attached/admitted. The credits obtained by the students can be transferred to their parent University at the end of their visit.

Article 18

The host University will accommodate the students of the other university in their regular/foreign student's hostel free of charge and pay a scholarship to the exchange students to meet their maintenance and living expenditure.

Article 19

The students under exchange programme shall not pay any fees to the host University. However, they shall be given an identity card, and they will have access to all student facilities like library, recreation clubs, film clubs, and such other facilities enjoyed by regular students of the host University.

Article 20

The exchange students must be covered by an adequate insurance premium before their arrival in the host University and the premium shall be borne by the students.

Article 21

The cost of international travel of the student will be the concern of the parent University. However, the host University will make arrangements for to and fro travel from the nearest airport to the University campus. The same shall be repeated on their return home.

Article 22

For the duration of exchange, the students shall pay their normal fees and other charges to their parent University and not to the host institutions.

Article 23

The results obtained in the course of joint research programme shall be jointly registered for patent or for commercial purposes. If one party abandons any claim or fails to give a reply within a period of 90 (ninety) days, the other party will be entitled to register under its own name.

S. LOGANATHAN
REGISTRAR
PONDICHERRY UNIVERSITY